


CHAPTER 11

HALFS & QUARTERS


Ques.1 Colour the $\frac{1}{4}$ of following picture.

१/४ भाग में रंग भरो |




Ques.2 Draw a line to show $\frac{1}{2}$.

१/२ भाग दिखाने के लिए रेखा खींचिए:-




Ques.3 Which of the following figure shows four equal parts.


निम्नलिखित में से कौन सा चार बराबर भागों को दर्शाता है |



A



B



C

Ques.4 Match the following figures:
मिलान करो

(A) $\frac{3}{4}$

B) $\frac{1}{4}$

C) $\frac{1}{2}$

D) $\frac{4}{4}$

A




B




C



D




Ques.5 Shade the $\frac{1}{4}$ of the given figure.
दिए गए चित्र के $\frac{1}{4}$ भाग में रंग भरें |



Ques.6) $250 \text{ g} + 250 \text{ g} + 150 \text{ g} + \underline{\hspace{2cm}} = 1000 \text{ g}.$
 $२५० \text{ ग्राम} + २५० \text{ ग्राम} + १५० \text{ ग्राम} + \underline{\hspace{2cm}} = १००० \text{ग्राम}$

Ques.7 The collection is divided into 4 equal parts. Encircled portion represents.

निम्नलिखित समूह चार बराबर भागों में विभाजित है चिन्दिता भाग को दर्शाये ।



A) $\frac{1}{3}$

B) $\frac{3}{4}$

C) $\frac{1}{2}$

Ques.8 Fill in the blanks:-
 खाली स्थान भरें ।

a) $1 \text{ kg} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g}.$
 $१ \text{ किग्रा०} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ ग्राम}$

b) $1 \text{ m} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}.$
 $१ \text{ मीटर} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ ग्राम}$

c) $1 \text{ liter} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ ml}.$
 $१ \text{ लीटर} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ मिली०}$

Ques.9 There are 20 blocks. $\frac{3}{4}$ are green. How many are not green?
 २० डिब्बों में $\frac{३}{४}$ हरे डिब्बे हैं । कितने डिब्बे हरे नहीं हैं ?

Ques.10 Three fourth of the match was over when I switched on TV. What part of the match is left?


जब मैंने टी०वी० लगाया तो $\frac{3}{4}$ मैच खत्म हो चुका था | मैच का कितना भाग रह गया था ?

Ques.11 From 12 boys in a school, $\frac{1}{2}$ went for swimming. How many children are left in the class?

१२ छात्रों की कक्षा में $\frac{1}{2}$ छात्र तैराकी के लिए चले गये | कितने छात्र कक्षा में शेष रह गये ?

Ques.12 Complete the diagram...

चित्र पूरा करो |



Ques.13 One can hold 500 ml of water. How many cans can be required to hold 2 liter of water.

एक बाल्टी में ५०० मिली पानी आता है | २ लीटर पानी ऐसी कितनी बाल्टियों में आएगा ?

Ques.14 Balance the weight with the help of following.

निम्नलिखित के सहायता से वजन को बराबर करें |

1 kg

2 kg

500 g

5 kg



Ques.15 Complete the following:-

निम्नलिखित स्थानों को भरें

a) $250 \text{ ml} + 250 \text{ ml} + \underline{\hspace{2cm}} = 1 \text{ liter.}$

$२५० \text{ मिली} + २५० \text{ मिली} + \underline{\hspace{2cm}} = १ \text{ लीटर} |$

b) $500 \text{ ml} + \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} = 1 \text{ liter.}$

$500 + \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} = १ \text{ लीटर} |$

c) $250 \text{ ml} + 250 \text{ ml} + \underline{\hspace{2cm}} + 250 \text{ ml} = 1 \text{ liter.}$

$२५० \text{ मिली} + २५० \text{ मिली} + \underline{\hspace{2cm}} २५० \text{ मिली} = १ \text{ लीटर} |$

ANSWERS

Ans.1 Students will do themselves.

छात्र स्वय करेंगे |

Ans.2 Do your self.

छात्र स्वय करेंगे |

Ans.3 Figure C

चित्र-स

Ans.4 A – C, B – A, C – D, D – B.

१ (स) २ (अ) ३ (द) ४ (ब)

Ans.5 Do your self.

छात्र स्वय करेंगे |

Ans.6 350 g.

३५० ग्राम

Ans.7 $\frac{1}{4}$ (A).

$\frac{1}{4}$ (अ)

Ans.8 1000, 100, 1000.

१०००, १००, १०००

Ans.9 $\frac{1}{4}$ are not green.

$\frac{1}{4}$ भाग

Ans.10 $\frac{1}{4}$

$\frac{1}{4}$

Ans.11 $\frac{1}{2}$, 6 boys.

$\frac{1}{2}$, ६ लडके

Ans.12 Do your self.

छात्र स्वय करेंगे |

Ans.13 4 cans

४ बाल्टी

Ans.14 2 kg + 1 kg.

२ किग्रा०, + १ किग्रा०

Ans.15

a) 500 ml.

५०० मिली०

b) 250 ml, 250ml.

२५० मिली० २५० मिली०

c) 250 ml.

d) २५० मिली०